

PC-355-CV-19
M.A. (3rd Semester)
Examination, Dec.-2020
PHILOSOPHY
Paper-IV

PATANJAL YOG DARSHAN YA SWAMI VIVEKANAND DARSHAN

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

[Minimum Pass Marks : 29

नोट : दोनों खण्डों से निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। प्रश्नों के अंक उनके दाहिनी ओर अंकित हैं।

Note : Answer from both the Sections as directed. The figures in the right-hand margin indicate marks.

खण्ड / Section-A

1. निम्नलिखित वस्तु निष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

1x10=10

Answer the following objective type questions:

(a) योग-विद्या के प्रथम प्रवर्तक कौन है ?

Who is the first profounder of yoga?

(b) योग सूत्र में कितने अध्याय है ?

How many chapter of yoga sutra?

(c) किन्हीं चार आसनों के नाम लिखिए।

Write the name of any four Asanas.

(d) संयम किसे कहते है ?

What is Sanyama?

(e) समाधि के कौन-कौन से भेद है ?

What are the forms of Samadhi?

(f) प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ?

Where is established the first yoga university?

(g) पातंजल योग के अनुसार कर्म के कौन-कौन से भेद है ?

What are the kinds of Karma according to patanjali yoja?

(h) पाँच आधुनिक योगियों के नाम लिखिए।

Write the name of five modern yogis.

(i) प्राणायाम के कौन-कौन से भेद है ?

What are the kinds of Pranayama?

(j) "व्यास भाष्य" नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है ?

Who is the writer of the book Vyasabhasya?

2. निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिये :-

2x5=10

Answer the following short answer type questions:-

(a) 'योग' शब्द का अर्थ क्या है ?

What is the meaning of the word yoga?

(b) योग के 'चतुर्व्यूहवाद' से क्या तात्पर्य है ?

What is meant by chaturvyuhavada of yoga?

(c) प्रत्याहार किसे कहते है ?

What is pratyahara?

(d) विभूति क्या है ?

What is vibhuti?

(e) योग मानव-जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी है ?

How is yoga useful for Human life?

निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

Answer the following long answer type question.

इकाई / Unit-I

3. योग की विषय वस्तु क्या है ? संक्षेप में विवेचना कीजिए।

What is the subject matter of yoga? Discuss.

अथवा / OR

पाँच प्रकार की चित्तवृत्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short notes on the five kinds of mental modification.

इकाई / Unit-II

4. समाधि क्या है ? इसके विभिन्न अवस्थाओं का विवेचना कीजिए।

What is Samadhi? Discuss its various levels.

अथवा / OR

योग दर्शन के अनुसार पंचक्लेशों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

Explain briefly the five kinds of pain according to yoga philosophy.

इकाई / Unit-III

5. बहिरंग साधन के रूप में यम और नियम का विवेचना करें।

Discuss the Yama and Niyama as a external aids.

अथवा / OR

योग साधना में आसन और प्राणायाम का महत्व बतलाइये।

Show the importance of Asana and Pranayama in yoga discipline.

इकाई / Unit-IV

6. धारणा और ध्यान पर संक्षिप्त निबंध लिखिए।

Write short essay on the Dharna and Dhyana.

अथवा / OR

योग दर्शन के अनुसार कर्मवाद के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए।

Bring out the nature of Karmavada according to yoga philosophy.

इकाई / Unit-V

7. ईश्वर के स्वरूप क्या है ? योग दर्शन में ईश्वर के महत्व को समझाइये।

What is the nature of God? Explain the importance of God in yoga philosophy.

अथवा / OR

कैवल्य के अर्थ एवं स्वरूप की विवेचना कीजिए।

Explain fully the meaning and nature of Kaivalya.